



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082023-247949
CG-DL-E-09082023-247949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3403]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945

No. 3403]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2023

का.आ. 3556(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3843 तारीख 16/08/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के बक्सर जिले में NH120 के कि.मी. 240.200 से कि.मी. 245.500 (बिक्रमगंज-डुमराँव पथ खण्ड) (जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, समहरणालय, बक्सर) तक के भूखण्ड पर (डुमराँव बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27.09.2022 हिन्दुस्तान एवं तारीख 28.09.2022 को प्रकाशित खबर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के बक्सर जिले में NH120 के कि.मी. 240.200 से कि.मी.245.500 (जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, समहरणालय, बक्सर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: बक्सर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: डुमराव					
गांव का नाम: भोजपुर कदीम					
1	2864	निजी	कृषि	0.0084	कान्ति देवी, पति- नन्दकिशोर सिंह वो लालजी सिंह, वो गुलाब सिंह, वो मनन सिंह, पिता- रामेश्वर सिंह, साकिन- पुराना भेजपुर 2864
2	2865	निजी	कृषि	0.1643	ललन जी लाल वो महेन्द्र लाल वो जगरनाथ लाल पिता- मुक्तिलाल 2865
3	2866	निजी	कृषि	0.0005	राम जियावन शर्मा पिता जानकी शर्मा 2866
4	2868	सरकारी	बाँध	0.0214	आनवाद सर्वसाधारण 2868
5	2870	सरकारी	बाँध	0.0185	आनवाद सर्वसाधारण 2870
6	2871	निजी	कृषि	0.1542	राम लखन राय पिता- गोपी राय 2871
7	3006	निजी	कृषि	0.0005	इन्द्रदेव पाण्डेय पिता- शिवगोविन्द पाण्डेय

					वगैरह 3006
8	3008	निजी	कृषि	0.0349	इन्द्रदेव पाण्डेय पिता- शिवगोविन्द पाण्डेय 3008
9	3009	निजी	कृषि	0.099	सुर्यनारायण प्रसाद पिता- राम प्रसाद वगैरह, गिरीजा देवी पति- सेमराज प्रसाद 3009
10	3010	निजी	कृषि	0.0558	सुर्यनारायण प्रसाद पिता- राम प्रसाद कमकर 3010
11	3011	निजी	कृषि	0.0614	सुर्यनारायण प्रसाद पिता- रमाप्रसाद कमकर 3011
12	3013	निजी	कृषि	0.2878	सत्यनारायण ओझा पिता महादेव ओझा 3013
13	3015	निजी	कृषि	0.0632	रघुनाथ पाठक पिता शिवपुजन पाठक, वली पाठक, वरमेश्वर पाठक पिता बुढा पाठक 3015
14	3017	निजी	कृषि	0.0326	जगबली सिंह पिता- स्व0 बलिराज सिंह 3017
15	3018	निजी	कृषि	0.0307	लालशती देवी पति रामराज सिंह यादव, वसन्त लाल पिता शिव प्रसाद, विन्देश्वरी प्रसाद, श्याम विहारी प्रसाद राम विहारी प्रसाद, अशोक प्रसाद पिता शिव प्रसाद 3018

16	3019	निजी	कृषि	0.0035	रामसुन्दर राय पिता- रामाधार राय प्रेम राय पिता- रामप्रीत राय 3019
17	3027	निजी	कृषि	0.0136	लालमुन्नी देवी पति- स्व० यदुवीर सिंह, श्री भगवान सिंह, विरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता- स्व० माधो सिंह 3027
18	3028	निजी	कृषि	0.0586	यदुवीर सिंह पिता शिवपुजन सिंह, माधो सिंह पिता शिवपुजन सिंह 3028
19	3029	निजी	कृषि	0.0665	वेद प्रकाश पाठक पिता- बालदेव पाठक वगैरह 3029
20	3030	निजी	कृषि	0.2126	सुर्यनाथ मिश्र, प्रभुनाथ मिश्र, गोरखनाथ मिश्र, योगन्द्र मिश्र, विरेन्द्र मिश्र पिता गंगाधर मिश्र, कामेश्वर मिश्र पिता चक्रधारी मिश्र 3030
21	3039	निजी	कृषि	0.0122	इन्द्रासनी देवी पति- सरयु यादव वो अंगिता देवी पति- राजेश कुमार यादव वो शिव गोविन्द्र कमकर वो विश्वनाथ पिता- राज कुमार कमकर वगैरह 3039
22	3040	निजी	कृषि	0.1425	बबन राम, बेनी राम, वीरवहादुर राम पिता गोरख राम, प्रभावती देवी पति बबन राम, सोनियाँ देवी पति बेनी

					राम, कलावती देवी पति बीरबहादुर राम, सुदामा कमकर, शिव प्रसाद कमकर पिता रामकुमार कमकर 3040
23	3042	निजी	कृषि	0.0186	मनराखन सिंह पिता रामसकल सिंह, कमल सिंह, विमल सिंह, वद्री सिंह पिता रामसकल सिंह 3042
24	3043	निजी	कृषि	0.1859	गिरीजा देवी पति- कन्हैया सिंह 3043
25	3044	निजी	कृषि	0.0063	मुनी गोंड पति मुनीलाल गोंड, रामलखन राय पिता गोपी राय 3044
26	3046	सरकारी	नाला	0.0163	रामलखन राय पिता- गोपी राय, शिवदास सिंह, शिवबचन सिंह, पिता- स्व० बालदेव सिंह 3046
27	3047	निजी	कृषि	0.0523	खतियान अप्राप्त 3047
28	3048	निजी	कृषि	0.0028	शिवदास सिंह पिता- स्व० बालदेव सिंह, शिवबचन सिंह पिता- स्व० बालदेव सिंह 3048
29	3049	निजी	कृषि	0.0028	देवमुनी कोइरी पिता रामपृत कोइरी, सुखारी कोइरी, मनोहर कोइरी पिता रामपृत कोइरी, मुनी गोंड पति

					मुनीलाल गोंड 3049
30	3058	सरकारी	नाला	0.0428	आनवाद सर्वसाधारण 3058
31	3069	निजी	कृषि	0.0744	छबी राय पिता रामखेलावन राय 3069
32	3336	सरकारी	नाला	0.0306	आनवाद सर्वसाधारण 3336
33	3337	सरकारी	नाला	0.0325	आनवाद सर्वसाधारण 3337
34	3340	निजी	कृषि	0.0709	विश्वामित्र प्रसाद, पिता राजनरायण गोंड, रामदास गोंड, गोरख प्रसाद पिता पारीख गोंड 3340
35	3341	निजी	कृषि	0.1147	सुखराज सिंह, रामराज सिंह, रामलखन सिंह, रामचंद्र सिंह, मैनेजर सिंह पिता सागर सिंह 3341
36	3347	निजी	कृषि	0.1394	सुखराज यादव, मैनेजर यादव, चंदर यादव कवल यादव, लक्ष्मण यादव पिता- सागर यादव 3347
37	3348	निजी	कृषि	0.007	हीरामन उपाध्याय, नील मणि उपाध्याय पिता अनिरुध उपाध्याय, विश्वनाथ उपाध्याय पिता नन्दकिशोर उपाध्याय 3348
38	3349	सरकारी	रेलवे	0.0465	रेलवे 3349
39	3352	निजी	कृषि	0.13	सुखराज सिंह, रामराज

					सिंह, रामलखन सिंह, रामचंद्र सिंह, मैनेजर सिंह पिता सागर सिंह, रामचन्द्र, रामजनम, शिवमुनी, विन्ध्याचल, रामकिशुन, रामप्रवेश पिता हरदास, हरपाल पाण्डेयपिता शिवनन्द पाण्डेय 3352
40	3354	निजी	कृषि	0.093	तुलसी वरभी पिता ठाकुर वरभी 3354
41	3356	निजी	कृषि	0.1208	सत्यनारायण ओझा पिता महादेव ओझा 3356
42	3357	निजी	कृषि	0.1099	सत्यनारायण ओझा पिता- महादेव ओझा 3357
43	3358	निजी	कृषि	0.0506	तपेशा ओझा पिता सहदेव ओझा 3358
44	3365	निजी	कृषि	0.049	मोटेमल अहीर, रूपचन्द्र अहीर पिता चीरकुट अहीर 3365
45	3469	निजी	कृषि	0.0864	शैल कुमारी देवी पति रामानाथ दुबे 3469
46	3470	निजी	कृषि	0.0237	लालचन्द्र शर्मा पिता- बसावन शर्मा 3470
47	3471	निजी	कृषि	0.0028	शिवशंकर राय पिता स्व. राधा राय 3471
48	3472	निजी	कृषि	0.065	शिवशंकर राय पिता स्व. राधा राय 3472

49	3473	सरकारी	नाला	0.014	आनावाद सर्वसाधारण 3473
50	3474	सरकारी	रेलवे	0.1255	रेलवे 3474
51	3483	निजी	कृषि	0.2137	कमला सिंह, राम बचन सिंह पिता दहारी सिंह, गोपाल जी चौबे, नेपाल चौबे, मुक्तिनाथ चौबेपिता स्व. चन्द्रशेखर चौबे, मीनु देवी पति उदय कुमार सिंह 3483
52	3484	निजी	कृषि	0.1487	कान्ति देवी पति त्रिलोकीनाथ सिंह, मु. सुखराजिया देवी शिव सागर यादव, रमाकांत यादव, मुन्ना यादव, श्यामल यादव भृगुनाथ यादव 3484
53	3523	निजी	कृषि	0.1951	मुकुंद पाल, पानालाल पाल, जयप्रकाश लाल, अजय पाल पिता किशन पाल, सीताराम पाल, श्रीरामपाल, बचन प्रसाद पालपिता रामनरायण पाल, विनोद कुमार राय पिता स्व. राजगृही राय, प्रेमनाथ राय पिता विश्वनाथ राय, धनवंती देवी पति लवकुश कुमार, रितु देवी पति भुपेन्द्र कुमार राय, साधना देवी पति बलराम राय, नागेन्द्र राय पिता शमशेर राय, सुधीर राय पिता दिफ्ती

					राय, निशा देवी पति रंजन कुमार पाण्डेय 3523
54	3524	निजी	कृषि	0.184	मुकुंद पाल, पानालाल पाल, जयप्रकाश लाल, अजय पालपिता किशन पाल, सीताराम पाल, श्रीरामपाल, बचन प्रसाद पालपिता रामनरायण पाल, विनोद कुमार राय पिता स्व. राजगृही राय, प्रेमनाथ राय पिता विश्वनाथ राय, धनवंती देवी पति लवकुश कुमार, रितु देवी पति भुपेन्द्र कुमार राय, साधना देवी पति बलराम राय, नागेन्द्र राय पिता शमशेर राय, सुधीर राय पिता दिफ्ती राय, निशा देवी पति रंजन कुमार पाण्डेय 3524
55	3528	सरकारी	नाला	0.0168	आनावाद सर्वसाधारण 3528
56	3546	निजी	कृषि	0.0026	खतियान अप्राप्त। 3546
57	3547	निजी	कृषि	0.1034	चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, सुदेश्वर चौबे पिता शिवदत्त चौबे, शिवबालक चौबे, बालेश्वर चौबे, बचन चौबे पिता अंजोर चौबे, मारकंडेय चौबे पिता रामदत्त चौबे, रामजग चौबे पिता हरद्वार चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे पिता रामनगीना

					चौबे, निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामादीन चौबे, सुनील चतुर्वेदी, अलोक गौतम पिता यदुवंश चौबे 3547
58	3548	निजी	कृषि	0.0675	चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, सुदेश्वर चौबेपिता शिवदत्त चौबे, शिवबालक चौबे, बालेश्वर चौबे, बचन चौबे पिता अंजोर चौबे, मारकंडेय चौबे पिता रामदत्त चौबे, रामजग चौबे पिता हरद्वार चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे पिता रामनगीना चौबे, निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबेपिता रामादीन चौबे, सुनील चतुर्वेदी, अलोक गौतमपिता यदुवंश चौबे 3548
59	3549	निजी	कृषि	0.0362	खतियान अप्राप्त। 3549
60	3554	निजी	कृषि	0.223	कृष्णा पाल, गुडू पाल, छोटे लाल, पिता श्याम बिहारी पाल, श्याम बिहारी पाल, अवध बिहारी पाल पिता प्रगास पिता प्रगास पाल, सत्यनरायण प्रसाद पिता शिवदासी प्रसाद, शान्ति देवी पति सत्यनरायण प्रसाद, रामयणप्रसाद, विनोद कुमार, सत्येन्द्र कुमार, पिता सत्यनरायण प्रसाद, राज कुमार,

					पिता स्व. संतोष कुमार 3554
61	3555	निजी	कृषि	0.2927	कृष्णा पाल, गुडू पाल, छोटे लाल, पिता श्याम बिहारी पाल, श्याम बिहारी पाल, अवध बिहारी पाल पिता प्रगास पिता प्रगास पाल, सत्यनरायण प्रसाद पिता शिवदासी प्रसाद, शान्ति देवी पति सत्यनरायण प्रसाद, रामयणप्रसाद , विनोद कुमार, सत्येन्द्र कुमार, पिता सत्यनरायण प्रसाद, राज कुमार, पिता स्व. संतोष कुमार 3555
62	3562	निजी	कृषि	0.0133	रामयश सिंह पिता दुलारी सिंह, श्री कृष्णा मिश्रा, हरेराम मिश्र, कन्हैया मिश्र, सरजू मिश्र, जगदीश मिश्र पिता देवदत्त मिश्र 3562
63	3563	निजी	कृषि	0.0813	कौशलेन्द्र शरण चौबे पिता रामदेव चौबे, ब्रह्मानंद चौबेपिता रामनरायण चौबे, रामदेव चौबे, कृष्णा चौबेपिता सतानंद चौबे 3563
64	3564	निजी	कृषि	0.1487	प्रेमनाथ चौबे, अनिल कुमार, सुनील कुमार चौबेनरेन्द्र नाथ चौबेपिता स्व. जगदीश चौबे, मीरा चौबेपति अमरेन्द्रनाथ चौबे,

					गोपालजी चौबे, नेपाल चौबे , मुक्तिनाथ चौबे पिता चन्द्रशेखर चौबे 3564
65	3586	सरकारी	नाला	0.0139	आनवाद सर्वसाधारण 3586
66	3589	निजी	कृषि	0.0014	रामदेव चौबे वो कृष्णा चौबे वो सदानन्द चौबे 3589
67	3590	निजी	कृषि	0.0313	ब्रह्मानंद चौबे पिता रामनारायण चौबे, रामदेव चौबे, विष्णु शंकर चौबे, कृष्णा चौबे पिता सतानंद चौबे 3590
68	3595	निजी	कृषि	0.078	ब्रह्मानंद चौबे पिता रामनारायण चौबे, रामदेव चौबे, विष्णु शंकर चौबे, कृष्णा चौबे पिता सतानंद चौबे 3595
69	3596	सरकारी	नाला	0.0158	बिहार सरकार नलकूप विभाग 3596
70	3597	निजी	कृषि	0.0047	चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे नगीना चौबे, राम निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामधनी चौबे 3597
71	3598	निजी	कृषि	0.0115	चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे नगीना चौबे, राम निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामधनी चौबे 3598

72	3599	निजी	कृषि	0.0743	रामदेव चौबे पिता- सतानन्द चौबे 3599
73	3600	निजी	कृषि	0.0028	रामदेव चौबे पिता- सतानन्द चौबे 3600
74	3602	निजी	कृषि	0.0053	रविशंकर चौबे, सिद्धनाथ सिंह पिता शिव बालक चौबे, चन्द्रवंश चौबे, पिता रामनेश चौबे, सुदेश्वर चौबे, पिता शिवदत्त चौबे, शिवबालक चौबे, बालेश्वर चौबे, बचन चौबेपिता अंजोर चौबे, मारकंडेय पिता रामदत्त चौबे, रामजग चौबेपिता हरद्वार चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबेपिता रमनगीना चौबे, निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामधनी चौबे 3602
75	3603	निजी	कृषि	0.0795	चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे नगीना चौबे, राम निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामधनी चौबे 3603
76	3605	निजी	कृषि	0.1185	विनोद कुमार राय, दिनेश पाण्डेय पिता राजगृही राय, ऋषिकेश पाठक, पुरुषोत्तम जी पाठक, श्री विद्यासागर पाठक पिता गोपालजी पाठक, सुनीता देवी

					पति छोटेलाल यादव 3605
77	3606	निजी	कृषि	0.039	राम सेवक चौबे पिता यदुपति चौबे 3606
78	3611	निजी	कृषि	0.1041	विशुनदेव सिंह पिता- स्व० जगरनाथ सिंह वो मारकण्डेय चौबे पिता- रामदत्त चौबे 3611
79	3612	निजी	कृषि	0.0644	भुनेशवर चौबे पिता रामशंकर चौबे, चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे, नगीना चौबे, राम निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामधनी चौबे 3612
80	3613	निजी	कृषि	0.0634	चन्द्रवंश चौबे पिता रामनरेश चौबे, हरी चौबे, देवेन्द्र चौबे पिता नगीना चौबे, राम निरंजन चौबे, राजेश्वर चौबे पिता रामधनी चौबे, सुनीलचतुर्वेदी, अलोक गौतमपिता यदुवंश चौबे, रेनु चतुर्वेदी पति स्व. विजय नरायण चौबे, विरेन्द्र चौबे पिता स्व. यदुवंश चौबे, प्रीती कुमारी पिताराज कुमार सिंह, दीनानाथ सिंह पिता रामसिंहासन सिंह, गणपति शर्मा पिता जमींदार शर्मा 3613

81	3614	निजी	कृषि	0.1104	किशुनदेव यादव पिता जगन्नाथ यादव 3614
गांव का नाम: डुमरांव					
82	105	सरकारी	बांध	0.0185	आनावाद सर्वसाधारण 105
83	115	निजी	कृषि	0.2777	राजेन्द्र पाल पिता- वासुदेव गडेरी, मसूद आलम अंसारी पिता- हाजी अंसारी 115
84	116	सरकारी	बांध	0.0562	आनावाद सर्वसाधारण 116
85	196	सरकारी	बांध	0.012	आनावाद सर्वसाधारण 196
86	197	निजी	कृषि	0.0371	ब्रह्मानंद चौबे, राम कुमार चौबे पिता रामनारायण चौबे, कृष्णदेवचौबे, रामदेव चौबे पिता सतानन्द चौबे, निर्भय शंकर चौबे पिता स्वर्गीय . विनोद शंकर चौबे 197
87	198	निजी	कृषि	0.0557	विक्रम भर पिता केदार भर 198
88	199	निजी	कृषि	0.0689	खतियान अप्राप्त। 199
89	200	निजी	कृषि	0.0027	प्रेमनाथ चौबे पिता जगदीश चौबे, अनिल कुमार चौबे पिता स्वर्गीय . जगदीश चौबे, सुनील कुमार चौबे पिता स्वर्गीय जगदीश चौबे 200
90	202	निजी	कृषि	0.0787	तारकेश्वर प्रसाद, पिता

					ठाकुर प्रसाद, हरगोविद प्रसाद पिता तारकेश्वर प्रसाद, श्री मति विमला देवी पति चंद्रमा पांडे, श्याम सुंदर प्रसाद पिता स्वर्गीय. शिवदयाल राम, अर्जुन प्रसाद पिता तारकेश्वर प्रसाद 202
91	206	निजी	कृषि	0.0499	जितेंद्र कुमारसिंह पिता गौरीशंकर सिंह 206
92	207	निजी	कृषि	0.0724	शशांक शेखर उपाध्याय, पिता चंद्र शेखर उपाध्याय, जिलेबीया देवी, पतिश्याम नारायण चमार, राम बिहारी राय, पिता स्व बगेदु राय,, सोनामती देवी पति चन्द्रशेखर उपाध्याय, अभिषेक कुमार पिता मोहनलाल उपाध्याय, रंजीत प्रसाद वो संजीत प्रसाद पिता गुलाब प्रसाद 207
93	208	निजी	कृषि	0.0725	श्रीराम शर्मा, पिता रामजन्म शर्मा, शशांक सेखर उपाध्याय पिता चंद्रशेखर उपाध्याय, राधा कृष्णा शर्मा, पिता रामजनम शर्मा, चंद्रावती देवी, पति कृष्ण शर्मा, श्रीमती दयमंती देवी पति भगवान प्रसाद, बीरेंद्र कुमार शर्मा पिता श्रीराम शर्मा, भागीरथी प्रसाद पिता मंगल

					प्रसाद, सोनामती देवी पति चन्द्रशेखर उपाध्याय, अभिषेक कुमार पिता मोहनलाल उपाध्याय, रंजीत प्रसाद बो संजीत प्रसाद पिता गुलाब प्रसाद 208
94	209	निजी	कृषि	0.017	रास बिहारी राय , शिव बिहारी राय पिता स्वर्गीय बगेदु राय 209
95	215	निजी	कृषि	0.0133	रामु प्रसाद पिता काशी प्रसाद, सुमित्रा देवी पति सुदामा सिंह, रमुनि देवी, पति सुरेन्द्र सिंह एवं सुशीला देवीपिता उपेन्द्र सिंह, रेहनाखातून, पति अब्दुल कलाम, मोहयोदीन, पिता स्व. हबीबी खाँ, पंकज पाल, पिता उमाशंकर पाल, रौशनी कुमारी, पति रविप्रताप सिंह, उषा देवी पति बिजयबहादुर राय 215
96	218	निजी	कृषि	0.0127	सोनाझरि देवी, पति ददन सिंह, केदार चमार पिता स्व. रामनगीना चमार, प्रेमा चौरसिया, पिताराजकुमार प्रसाद चौरसिया, बबिता देवी, पति राजेश कुमार, इन्दु देवी पति राजकुमार साह, निर्मल राम, पिता स्व. केदार चमार, शोभा देवी पति मनोज

					कुमार 218
97	219	निजी	कृषि	0.0956	केदार चमार, पिता स्व. रामनगीना चमार, केदार चमार, परवेज अख्तर वो एजाज अख्तर वो शहीद ईकबालपिता असल हाफिज निर्मल राम, मनोज रामपिता स्व. केदार चमार, सुरजी देवी पति केदार चमार, सरिता देवी पति मनोज रामशोभा देवी पति मनोज कुमार सिंह 219
98	220	निजी	कृषि	0.0487	मुकेश कुमार सिंह, पिता हरेंद्र कुमार सिंह, कलावती देवी पति गणेश गोंड, श्रीमती गीता देवी पति गोरख चाँद, सुकिया देवी पति वैजनाथ पासी, बलकेशिया देवी पति भोला गोंड, रंगनाथ प्रसाद, पिता राधाकृष्ण सोनार 220
99	221	निजी	कृषि	0.0005	खतियान अप्राप्त। 221
100	223	निजी	कृषि	0.0255	खतियान अप्राप्त। 223
101	224	निजी	कृषि	0.1114	फजलुर रहमान पिता बर्कत मियाँ 227
102	225	निजी	कृषि	0.0617	ईशर सिंह, धनपत सिंह, महेश प्रसाद श्रीवास्तव, दिनेश प्रसाद श्रीवास्तव, मोहन

					प्रसाद श्रीवास्तव, पिता जगदम्बा सहाय, विनय शंकर श्रीवास्तव, पिता जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, कुमकुम देवी पति लालु राम, धरमेन्द्र राम पिता कन्हैया राम, इन्द्रमणी देवी पति महेश सिंह, उर्मिला देवी पति श्रीनारायण सिंह, लक्ष्मण ततवा, पिता सत्यनारायण ततवा, 225
103	2262	निजी	कृषि	0.0014	ब्रज कुमार राय पिता- कृपा राय 2262
104	2268	निजी	कृषि	0.1077	मुतन प्रसाद, पिता किरहीर प्रसाद 2268
105	2282	निजी	कृषि	0.0603	डुमराँव नगरपालिका 2282
106	2283	सरकारी	नाला	0.1449	अनावाद सर्वसाधारण 2283
107	2293	निजी	कृषि	0.0538	विकास मिश्र पिता स्व शिवधर मिश्रा, ज्वाला मिश्रापिता लछुमन मिश्र 2293
108	2294	निजी	कृषि	0.0508	टिलू राय 2294
109	2296	निजी	कृषि	0.0975	, कंचन देवी, पति बरमेश्वरनाथ तिवारी 2296
110	244	सरकारी	नहर	0.0092	अनावाद सर्वसाधारण 244
111	309	निजी	कृषि	0.111	नथुनी राय, जय गोपाल राय, विशुनदेव राय

					पितामुनेश्वर राय 309
112	331	निजी	कृषि	0.1579	प्रेमनाथ चौबे, पिता जगदीश चौबे, अनिल कुमार चौबे, पितास्व जगदीश चौबे, सुनील कुमार चौबे, पितास्व जगदीश चौबे, नरेंद्र नाथ चौबे, पितास्व जगदीश चौबे, मीरा देवीपतिअमरेंद्र नाथचौबे, मुसमात मनवा पिता गंगा दुसाध, मरचईया देवी पति स्व पन्ना लाल पासवान 331
113	332	निजी	कृषि	0.1393	चंद्रवंश चौबे, पिता रामनरेश चौबे, बिरेन्द्र चौबे, पिता चन्द्रवंश चौबे 332
114	334	निजी	कृषि	0.0817	शांति देवी पति बालेश्वरचन्द साह , हसन खाँ, पिता हबीबी खाँ, माया चौबेपतिसुनील कुमार चौबे, गोपाल जी चौबे वो रविन्द्र नाथ चौबे उर्फ नेपाल चौबे, मुक्तिनाथ चौबे पितास्व चंद्रशेखर चौबे 334
115	365	सरकारी	नाला	0.0139	अनावाद सर्वसाधारण 365
116	50	निजी	कृषि	0.0009	संतोष कुमार पासी, पिता ललन पासी, चंद्र वंश चौबे, पिता

					रामनरेश चौबे, रेनु चतुर्वेदीपतिस्व विजय नारायण चौबे, बिरेन्द्र चौबे पिताचन्द्रवंश चौबे 50
117	51	निजी	कृषि	0.2043	सोभा देवी पति अनिल कुमार तिवारी, पुष्पा तिवारीपिता रामइकबा तिवारी, तुलसी तिवारी पिता हरिकेवल यादव 51
118	52	निजी	कृषि	0.0362	धनवंती देवी पति कपिलमुनी सिंह, नागेंद्र कुमार, धनु कुमार पिता कपिलमुनी सिंह, कृष्णा देवी पति इन्द्रदेव पाण्डेय, सुगन्धि पांडेय पति श्री सत्यनारायण पाण्डेय, मुसमात रंजू देवी पति विद्या उपाध्याय, मालती देवी पिता विद्य उपाध्याय, दलीवाल उपाध्याय वगैरह, कमली देवी पति पीताम्बर उपाध्याय, मिथलेश उपाध्याय पिता पीताम्बर उपाध्याय, ददन जी उपाध्याय पिता श्रीधर उपाध्याय, किरण देवी मोहन जी उपाध्याय पिता विनायक उपाध्याय 52
119	53	निजी	कृषि	0.1105	प्रेमनाथ चौबे, अनिल कुमार चौबे पिता स्व जगदीश चौबे 53
120	54	निजी	कृषि	0.052	सुनील कुमार चौबे पिता स्व जगदीश चौबे, नरेंद्र नाथ चौबे पिता

					स्व. जगदीश चौबे, मीरा देवी पति अमरेंद्र नाथ चौबे, रघुपत राय पिता भगवत राय 54
121	55	निजी	कृषि	0.1281	कृष्णा देव चौबे पिता सतनाथ चौबे, राम विलास सिंह पिता स्व. सीताराम कोअरी, प्रभा देवी पति दीनानाथ सिंहधन बहादुर सिंह पिता स्व. रामचन्द्र सिंह 55
122	56	निजी	कृषि	0.0149	जगदीश अहीर पिता- खखनु अहीर, कृष्णदेव चौबे पिता- विश्वनाथ चौबे, गोपालजी चौबे वो रविन्द्र नाथ चौबे उर्फ नेपाल चौबे, मुक्तिनाथ चौबे पिता- स्व0 चन्द्रशेखर चौबे, श्याम देव पिता- जगदीश सिंह धनबहादुर सिंह पिता- स्व0 रामचन्द्र सिंह, जितेन्द्र कुमार सिंह पिता- गौरी शंकर सिंह 56
123	59	सरकारी	सड़क	0.051	आनवाद सर्वसाधारण 59
124	62	निजी	कृषि	0.0014	जयश्री कुमारी पति कुशल कुमार 62
125	64	निजी	कृषि	0.0185	शिव कुमारी देवी पति बबन सिंह यादव, अफसाना बानी पति अफताब आलम, सुमित्रा देवी पति दुराम राय, शंकर प्रसाद पिता

					<p>स्व. कन्हैय प्रसाद गुप्ता, जगमोहन सिंह यादव पिता भुनेश्वर सिंह यादव, लव कुमार पांडेय पिता स्व रामाधार पाण्डेय, कुन्ती देवी पति मुना यादव, मधु कुमारी पति राजेश सिंह यादव, सुनैना देवी पति हरेन्द्र यादव 64</p>
126	65	निजी	कृषि	0.0789	<p>जैबुन निशा पति मंसुर आलम, काशीनाथ पांडेय पिता विश्वनाथ पाण्डेय, सत्येंद्र प्रसाद सिंह पिता नागेन्द्र प्रसाद सिंह, सत्येंद्र प्रसाद सिंह पिता विश्वनाथ सिंह, लव कुमार पांडेय पिता स्व. रामाधार पाण्डेय, रामेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री गंगा सिंह, राजीव कुमार सिंह पिता ददन सिंह, शुभान्ति देवी पति अखिलेश्वर कुमार, लाला देवी पति सीताराम सिंह, चन्दन कुमार पिता नन्दकिशोर, अरविन्द कुमार सिंह पिता श्यामनरायण सिंह 65</p>
127	66	निजी	कृषि	0.0459	<p>राधा कृष्णा शर्मा पिता रामजन्म शर्मा, रेनू देवी पति छटु लाल, सरयू यादव पिता बच्चु यादव, आयशा बेगम पति अख्तर हुसैन, तेजा खाँ पिता समसुदीन खाँ</p>

					66
128	687	निजी	कृषि	0.0585	राजेंद्र राय पिता छटु राय 687
129	69	निजी	कृषि	0.0562	रामदेव सिंह वो बिरेन्द्र देव सिंह, विक्रम देव सिंह, ओमदेव सिंह वो श्री प्रकाश सिंह , नरेन्द्रदेव सिंह वो संजय सिंह वो ओमप्रकाश सिंह पिता यमुना सिंह, श्री कन्हैया सिंह वो संतोष सिंह पिता रामदेव सिंह, सुनीता सिंह पति विरेन्द्र देव सिंह 69
130	698	निजी	कृषि	0.0055	कवलधारी राय, जगनारायण राय पिता-हरगुन राय 698
131	699	निजी	कृषि	0.0467	कृष्णा कुमार सिंह, राजेश्वरसिंह, निर्मल कुमार शर्मा, पिता मानिकचन्द शर्मा, सुमन कुमार पिता महेन्द्र प्रसाद 699
132	70	निजी	कृषि	0.1869	श्री दया नन्द राय पिता राममजनम राय, चिन्ता देवी पति अनील गोंड, आयशा प्रवीण पति मुमताजज अहमद, कौशल्या देवी पति बिजय चौधरी, श्रीमती गागो देवी पति बट्टी मिश्रा, शान्ति देवी पति जगदीश सिंह, शिवरात्री देवी पति अनिरुद्ध प्रसाद, अंजु

					मजुमदार पति प्रभास मजुमदार 70
133	700	निजी	कृषि	0.0836	बैजनाथ प्रसाद, पिता विश्वनाथ प्रसाद, मंगरु शर्मा, स्व नागेश्वर शर्मा, संतोष शर्मा, पिता रुपचन्द्र शर्मा 700
134	701	निजी	कृषि	0.1226	योगेन्द्र राय, सुशील कुमार रायपिता जगदीश राय 701
135	703	निजी	कृषि	0.1024	राधिका देवी, पति रामपति राय, सुर्दशन राय वो दिनेश राय वो हरेंद्र राय, पिता बैजनाथ राय, वीरन राय, जलेन्द्र राय पिता बबन राय, चन्द्रचूड़ी राय उर्फ चन्द्रमा राय, बबुरदन राय, पिता बसरोपन राय, 703
136	704	निजी	कृषि	0.0905	कन्हैया राय पिता सखीचन्द्र राय, लाल जी राय पिता देवीदयाल राय 704
137	714	निजी	कृषि	0.3251	रामनगीना तिवारी, शिवमंगल तिवारी, पियारो कुंवरी, राम कुमार तिवारी , विश्वनाथ तिवारी , पिता शिवनाथतिवारी , गुप्तेश्वर तिवारी , पिता देवकी तिवारी, शम्भू तिवारी वो भोला

					तिवारी, राम पुजन तिवारी , 714
138	715	निजी	कृषि	0.0157	नविन कुमार राय, प्रवीन कुमार पिता प्रभाकर राय, अमरावती देवी पति प्रभाकर राय 715
139	716	निजी	कृषि	0.0141	सोनू कुमार पिता अवधेश कुमार सिंह, श्याम बिहारी राय, पिताबेनी राय 716
140	717	निजी	कृषि	0.2415	बिन्दा देवी पति नन्द कुमार तुरहा, सत्येंद्र कुमार तुरहा पिता भरत तुरहा उर्फ सत्यनारायन तुरहा, सरस्वती देवी, पति रामजी ठाकुर 717
141	719	निजी	कृषि	0.0696	लालमुनि देवी पति भगवान दास विजय गुप्ता, किशन गुप्ता, पिता रघुनाथ गुप्ता, कमला देवी, पति श्री राम राजन सिंह 719
142	720	सरकारी	नाला	0.0232	आनवाद सर्वसाधारण 720
143	721	निजी	कृषि	0.0369	जनार्दन सिंह पिता स्व रघुनाथ सिंह, प्रेमशीला देवी पति अमप्रकाश गीरी, चम्पा देवी पति दिलीप कुमार उपाध्याय, जाबंती देवी पति महेन्द्र सिंह, पिन्की देवी पति अजय कुमार 721

144	722	निजी	कृषि	0.015	जनार्दन सिंह, पिता रघनाथ सिंह, जाबांती देवी पति महेंद्र सिंह, पिन्की देवी पति अजय कुमार उपाध्याय 722
145	724	निजी	कृषि	0.0005	श्रीराम राय पिता श्री जगदीश राय, बुधन राय वो महावीर राय वो बजरंग राय वो कैलाश राय, पिता अवध बिहारी राय, राजेश कुमार पिताराम जतन सिंह, मोहन सिंह, पिता स्व. नुथन सिंहपंकज कुमार चौबे पिता कन्हैया चौबे, गोविन्द चतुर्वेदी भोला राय, पिता स्व. रामजतन राय, सत्येंद्र राय, पिता भोला राय, उमेश राय, पिता भोला राय, छोटे लाल राजभर, मुकेश कुमार राय, बब्लु राय पिता भोला राय 724
146	824	निजी	कृषि	0.01	जगनारायण राय पिता- हरगुन राय 824
147	825	निजी	कृषि	0.4319	राम प्रताप सिंह, नन्दगोपाल राय, ललन जी सिंह, पिता रामनरेश सिंह, स्व. रविंद्र राय, पिता शिवपुजन राय, पुनम देवी पति दिनानाथ राम, मंजू देवी, पति स्व. विमल किशोर ओझा

					825
148	826	सरकारी	नाला	0.0371	आनवाद सर्वसाधारण 826
149	827	निजी	कृषि	0.039	सकील अहमद पिता फैयाज अहमद, समसुदीनपिता स्व. बरकतुल्लाह, बीबी नबीहन, पति मो. समसुद्दिन, मो. शोएब पिता स्व. मो. समसुद्दिन 827
150	828	निजी	कृषि	0.1532	मुसमात इन्द्रमणी देवी, पति शिवगोविन्द सिंह, मीरा देवी, पति ओमप्रकाश तुरहा 828
151	829	निजी	कृषि	0.0929	सोमनाथ गुप्ता, पिता कन्हैया प्रसाद, संजय कुमार, सुनील कुमार, सोनू कुमार पिता कन्हैया प्रसाद 829
152	830	निजी	कृषि	0.1282	मनोरमा देवी, पति भरत गीरी, मनीता देवी पति राजमोहन कोइरी, चिन्ता देवी पति राज नरायन कोइरी, अनीता देवी पति तारकेश्वर सिंह, संतोष कुमार पिता रामेश्वर नाथ तिवारी, जगमोहन चौधरी पिता गोरख अहीर, मो. अल्लाउद्दिन पिता नथुनी मियाँ, मुन्नी खातुन पति मो. अल्लाउद्दिन, मो.

					कलिमुद्दिन अंसारी पितामो. अख्तर हुसैन पुनीता कुमारी पिता रविशंकर राय 830
153	897	सरकारी	कृषि	0.1393	आनवाद सर्वसाधारण 897
154	898	सरकारी	नाला	0.0217	आनावाद सर्वसाधारण 898
155	899	निजी	कृषि	0.2777	बिन्देश्वरी राय शर्मा पिता- प्रभुनाथ शर्मा 899
156	901	निजी	कृषि	0.0664	रामद्वार चौबे पिता राजाराम चौबे, गायत्री देवी, पति नाथ चौबे साहिदा खातून, पति कासिम, ललन सिंह, पिताविश्राथ सिंह, ऋणी देवी, पति लालचंद राम, गीता डेविड, पिता राम राइ, निर्मला देवी पिता सुरेश राम, गंगया देवी पिता जवाहर राम, संगीता देवी, पिता पंकज कुमार राम, मंदोदरी देवी पति पारस नाथ ठाकुर 901
157	924	निजी	कृषि	0.0276	अनिरुध सिंह पिता बासुदेव सिंह, राजेश्वरी देवीपतिसुरेश सिंह, श्री राम तुरहा पिता गणेश दयाल तुरह, शान्ति देवी पति श्री राम तुरहा, केदारनाथ राय पिता शिवशंकर राय, गौरीशंकर राय पिता नरायण राय, शुभनरायण पिता

					गनेश प्रसाद, निसार जहाँ पति मो. नशीम, कृष्ण कुमार सिंह पिता शिवनाथ सिंह, मो. शमीम अंसारी पिता कयामुद्दिन अंसारी 924
कुल योग				11.6827	

[फा. सं. RW/PAT/NH/120/GOH - DAUDNAGAR-NASRIGANJ - DAWAT - DUMRAON section/LA/2021/3D1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2023

S.O. 3556(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3843 Dated:16/08/2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (Dumroan Bypass) Maintenance management and operation of NH120 in the stretch of land from Km. 240.200 to Km. 245.500 (Bikramganj-Dumraon Section) (District Land Aquisition Officer, Collectorate, Buxar) in the district of BUXAR in the state of BIHAR

And whereas the substance of the said notification has been published in “*NewsPaper Hidustan on dated 27-09-2022*” and “*Newspaper Prabhat Khabar on dated 28.09.2022*” under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH120 in the stretch of land from Km. 240.200 to Km. 245.500 (District Land Aquisition Officer, Collectorate, Buxar) in the district of BUXAR in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: BUXAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dumraon					
Village: Bhojpur Kadim					
1	2864	Private	Agriculture	0.0084	Kanti devi W/o- Nand Kishor Singh, Lal jee Singh, Gulab Singh, Manan Singh,

					S/o- Rameshwar singh 2864
2	2865	Private	Agriculture	0.1643	Laln ji, Lal, , Mahendra lal, jagnath lal s/o Muktilal 2865
3	2866	Private	Agriculture	0.0005	Ram jiyavan sharma s/o Janaki sharma 2866
4	2868	Government	Bandh	0.0214	Aanavad Sarvasadharan 2868
5	2870	Government	Baandh	0.0185	Aanavad Sarvasadharan 2870
6	2871	Private	Agriculture	0.1542	Ram lakhan ray s/o Gopi ray 2871
7	3006	Private	Agriculture	0.0005	Indradev pandey S/0- Shiv Govind pandey other 3006
8	3008	Private	Agriculture	0.0349	Indradev pandey S/0- Shiv Govind pandey 3008
9	3009	Private	Agriculture	0.099	Surya narayan prasad S/0- Ram Prasad other, Girija devi W/0- Semraj Prasad 3009
10	3010	Private	Agriculture	0.0558	Surya narayan prasad S/0- Ram Prasad kamkar 3010
11	3011	Private	Agriculture	0.0614	Surya narayan prasad s/o Ramprasad kamkar 3011
12	3013	Private	Agriculture	0.2878	Satyanarayan ojha s/o mahadeva ojha 3013
13	3015	Private	Agriculture	0.0632	Raghunath pathak s/o Shivapujan pathak, Vali pathak, Varameshwar pathak s/o Budhpathak, 3015
14	3017	Private	Agriculture	0.0326	Jagbali Singh S/0- Late Baliraj Singh 3017
15	3018	Private	Agriculture	0.0307	Lalshati debi w/o Ramraj singh yadav, Vasant lal s/o Shiv prasad, Vindeshwari prasad, Shyam vihari prasad, Ram vihari prasad, Ashok prasad s/o Shiv prasad 3018
16	3019	Private	Agriculture	0.0035	Ramasundar ray S/0- ramadhar rai Prem rai s/o Rampreet ray 3019
17	3027	Private	Agriculture	0.0136	LaLmuni devi W/0- Late Yadveer Singh,Bhagwan

					Singh, Virendra Singh, Shatendra Singh S/O- Late Madho Singh 3027
18	3028	Private	Agriculture	0.0586	Yaduveer singh s/o Shiv pujan singh, Madho singh s/o Shivapujan singh 3028
19	3029	Private	Agriculture	0.0665	Ved prakash pathak S/O- Baldev Pathak other 3029
20	3030	Private	Agriculture	0.2126	Suryanath mishra, Prabhunath mishra, Gorakhnath mishr, Yogandra mishra, Virendra mishra s/o Gangadhar mishr, Kameshwar mishra s/o Chakradhari mishra 3030
21	3039	Private	Agriculture	0.0122	Indrashani devi W/O- Saryu Yadav, Angita devi W/O- Rajesh Kumar Yadav, Shiv Govind kamkar, Vishvnath S/O- Raj Kumar Kamkar other 3039
22	3040	Private	Agriculture	0.1425	Baban ram, Beni ram, Veer Bahadur ram s/o Gorakh ram, Prabhavati debi w/o Baban ram, Soniya debi w/o Beni ram, Kalavati debi w/o Beer Bahadur Ram, Sudama kamkar, Shiv prasad kamkar s/o Ram kumar 3040
23	3042	Private	Agriculture	0.0186	Manrakhan singh s/o Ramasakal singh, Kamal singh, Vimal singh, Badri singh s/o Ramasakal singh 3042
24	3043	Private	Agriculture	0.1859	GIRIJA DEVI W/O- KANHIYA SINGH 3043
25	3044	Private	Agriculture	0.0063	Muni gond w/o Munilal gond, Ramlakhan ray s/o Gopi ray 3044
26	3046	Government	Nala	0.0163	Ramlakhan ray s/o Gopi ray, Shivdas singh, Shiv avachan singh s/o Let.Valdev singh 3046
27	3047	Private	Agriculture	0.0523	Record not found 3047
28	3048	Private	Agriculture	0.0028	Shiv das singh s/o Let. Valdev singh, Shiv vachan s/o Let. Baldev singh 3048

29	3049	Private	Agriculture	0.0028	Devuni koiri s/o Ram pirit koiri, Sukhari koiri, Manohar koiri s/o Ramprit koiri, Muni gond w/o Munilal gond 3049
30	3058	Government	Nala	0.0428	Aanavad Sarvasadharan 3058
31	3069	Private	Agriculture	0.0744	Chhabi ray s/o Ramakhelavan ray 3069
32	3336	Government	Nala	0.0306	Aanavad Sarvasadharan 3336
33	3337	Government	Nala	0.0325	Aanavad Sarvasadharan 3337
34	3340	Private	Agriculture	0.0709	Vishvamitra prasad, s/o Rajnarayan gond, Ramdas gond, Gorakh prasad s/o Parikh gond 3340
35	3341	Private	Agriculture	0.1147	Sukhraj singh, Ramraj singh, Ramlakhan singh, Ramchandra singh, Manager singh s/o Sagar singh 3341
36	3347	Private	Agriculture	0.1394	Sukhraj yadav, Manejar yadav, Chndar yadav Kaval Yadav, Laxman yadav S/O-Sagar Yadav 3347
37	3348	Private	Agriculture	0.007	Hiraman upadhyay, Neel mani upadhyays/o Anirudh upadhyay, Vishvanath upadhyays/o Nandakishor upadhyay 3348
38	3349	Government	Railway	0.0465	Railway 3349
39	3352	Private	Agriculture	0.13	Sukhraj singh, Ramraj singh, Ramlakhan singh, Ramchandra singh, Manager singh s/o sagar singh, Ramchandra, Ramjanam, Shiv muni, Vindhyachal, Ramkishun, Rampraves s/o Hardas, Harpal pandey s/o Shivanand pandey 3352
40	3354	Private	Agriculture	0.093	Tulsi varabhi s/o Thakur varabhi 3354
41	3356	Private	Agriculture	0.1208	Satyanarayan ojha s/o Mahadeva ojha 3356
42	3357	Private	Agriculture	0.1099	Satyanarayan ojha s/o Mahadeva ojha 3357

43	3358	Private	Agriculture	0.0506	Tapesha ojha s/o Sahdev ojha 3358
44	3365	Private	Agriculture	0.049	Motomal ahir, Roopchand ahir s/o Chirkut ahir 3365
45	3469	Private	Agriculture	0.0864	Shail kumari devi w/o Ramanath dubey 3469
46	3470	Private	Agriculture	0.0237	LAL CHNDRA SHARMA s/O- BSAWAN SHRMA 3470
47	3471	Private	Agriculture	0.0028	Shivashankar ray s/o Let. Radha rai 3471
48	3472	Private	Agriculture	0.065	Shivashankar ray s/o Let. Radha rai 3472
49	3473	Government	Nala	0.014	Aanavad Sarvasadharan 3473
50	3474	Government	Railway	0.1255	Railway 3474
51	3483	Private	Agriculture	0.2137	Kamla singh, Ram bachan singh s/o Dahari singh, Gopal ji choubey, Nepal choubey, Muktinath choubey s/o Let. Chandrashekhhar choubey, Meenu debi w/o Uday kumar singh 3483
52	3484	Private	Agriculture	0.1487	Kanti devi w/o Trilokinathsingh, Mu. Sukhrajia devi w/o Let. Shiv sagaryadav, Ramakant yadav, Munna yadav, Shyamal yadav s/o Bhrigunathyadav 3484
53	3523	Private	Agriculture	0.1951	Mukund pal, Panalal pal, Jayprakash Pal, Ajay pal s/o Kishan pal, Sitaram pal, Shriram pal, Bachan prasad pal s/o Ramnarayan pal, Vinod kumar ray s/o Let. Rajagrihi rai, Premnath ray s/o Vishwanath rai, Dhanvanti debi w/o Lavkush kumar, Ritu debi w/o Bhupendra kumar rai, Sadhana debi w/o Balram ray, Nagendra rai s/o Shamsheer ray, Sudhir rai s/o Difti ray, Nisha debi w/o Ranjan kumar pandey 3523
54	3524	Private	Agriculture	0.184	Mukund pal, Panalal pal,

					Jayprakash Pal, Ajay pal s/o Kishan pal, Sitaram pal, Shriram pal, Bachan prasad pal s/o Ramnarayan pal, Vinod kumar ray s/o Let. Rajagrihi rai, Premnath ray s/o Vishwanath rai, Dhanvanti debi w/o Lavkush kumar, Ritu debi w/o Bhupendra kumar rai, Sadhana debi w/o Balram ray, Nagendra rai s/o Shamsheer ray, Sudhir rai s/o Difti ray, Nisha debi w/o Ranjan kumar pandey 3524
55	3528	Government	Nala	0.0168	Aanavad Sarvasadharan 3528
56	3546	Private	Agriculture	0.0026	Record not found 3546
57	3547	Private	Agriculture	0.1034	Chandravansh choubey s/o Ramnaresh choubey, Sudeshwar choubey s/o Shiv dattchoubey, Shivbalak choubey, Baleshwar choubey, Bachan choubey s/o Anjor choubey, Markandey choubey s/o Ramdatt choubey, Ramjag choubey s/o Hardwar choubey, Hari choubey, Devendra choubey s/o ramanageena choubey, Niranjana choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramadeenchoubey, Sunil chaturvedi, Alok gautam s/o Yaduvansh choubey 3547
58	3548	Private	Agriculture	0.0675	Chandravansh choubey s/o Ramnaresh choubey, Sudeshwar choubey s/o Shivdatt choubey, Shivbalak choubey, Baleshwar choubey, Bachan choubey s/o Anjor choubey, Markandey choubey s/o Ramdatt choubey, Ramjag choubey s/o Hardwar choubey, Hari choubey, Devendra choubey s/o ramanageena choubey, Niranjana choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramadeenchoubey, Sunil chaturvedi, Alok gautam s/o Yaduvansh choubey 3548
59	3549	Private	Agriculture	0.0362	Record not found 3549

60	3554	Private	Agriculture	0.223	Krishna pal, Gudu pal, Chhote pal s/o Shyam vihari pal, Shyam bihari pal, Avadh bihari pal s/o Pragas pal, Pragas pal, Satyanarayan prasad s/o Shivadasi prasad, Shanti debi w/o Satyanarayan prasad, Ramayan prasad, Vinod kumar, Satyendra kumar, s/o Satyanarayan prasad, Raj kumar, s/o Let. Santosh kumar 3554
61	3555	Private	Agriculture	0.2927	Krishna pal, Gudu pal, Chhote pal s/o Shyam vihari pal, Shyam bihari pal, Avadh bihari pal s/o Pragas pal, Pragas pal, Satyanarayan prasad s/o Shivadasi prasad, Shanti debi w/o Satyanarayan prasad, Ramayan prasad, Vinod kumar, Satyendra kumar, s/o Satyanarayan prasad, Raj kumar, s/o Let. Santosh kumar 3555
62	3562	Private	Agriculture	0.0133	Ramayash singh s/o Dulari singh, Shree krishnamishra, Hareram mishra, Kanhaiya mishra, Sarju mishra, Jagdish mishra s/o Devadatt mishra 3562
63	3563	Private	Agriculture	0.0813	Kaushlendra sharan choubey s/o Ramdev choubey, Brahmanand choubey s/o Ramnarayan choubey, Ramdev choubey, Krishna chaube s/o Satanand choubey 3563
64	3564	Private	Agriculture	0.1487	Premnath choubey, Anil kumar, Sunil kumarchoubey Narendra nath choubey s/o Let. Jagdish choubey, Meera choubey w/o Amarendra nath choubey, Gopal ji choubey, Nepal choubey, Muktinath choubey s/o Chandrashekhar choubey 3564
65	3586	Government	Nala	0.0139	Aanavad Sarvasadharan 3586
66	3589	Private	Agriculture	0.0014	Ramdev Chobey, Kirishna Chobey, Sdanand chobey 3589
67	3590	Private	Agriculture	0.0313	Brahmanand choubey s/o

					Ramnarayan choubey, Ramdev choubey, Vishnu Shankar chaubey, Krishna chaube s/o Satanand chaubey 3590
68	3595	Private	Agriculture	0.078	Brahmanand choubey s/o Ramnarayan choubey, Ramdev choubey, Vishnu Shankar chaubey, Krishna chaube s/o Satanand chaubey 3595
69	3596	Government	Nala	0.0158	Bihar sarkar nalkup vibhag 3596
70	3597	Private	Agriculture	0.0047	Chandravansha choubey s/o Ramnaresh choubey, Hari choubey, Devendra choubey Nagina choubey, Ram niranjan choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramdhani choubey 3597
71	3598	Private	Agriculture	0.0115	Chandravansha choubey s/o Ramnaresh choubey, Hari choubey, Devendra choubey Nagina choubey, Ram niranjan choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramdhani choubey 3598
72	3599	Private	Agriculture	0.0743	Ram dev chobey S/o- shatanad chobey 3599
73	3600	Private	Agriculture	0.0028	Ram dev chobey S/o- shatanad chobey 3600
74	3602	Private	Agriculture	0.0053	Ravishankar choubey, Siddhanath singh s/o shiv balakchoubey, Chandravansh choubey, s/o Ramnesh choubey, Sudeshwar choubey, s/o Shivdatt choubey, Shivbalak choubey, Baleshwar choubey, Bachan choubey s/o Anjor choubey, Markandey s/o Ramdatt choubey, Ramjagchoubey s/o Hardwar choubey, Hari choubey, Devendra chaubepita Ramanagina choubey, Niranjana choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramdhani 3602
75	3603	Private	Agriculture	0.0795	Chandravansh chaube s/o Ramnaresh choubey, Hari choubey, Devendra choubey

					Nagina choubey, Ram niranjanchoubey, Rajeshwar choubey s/o Ramdhani choubey 3603
76	3605	Private	Agriculture	0.1185	Vinod kumar rai, Dinesh pandey s/o Rajagrihi ray, Rishikesh pathak, Purushottam ji pathak, Shri vidyasagarpathak s/o Gopalji pathak, Sunita debi w/o Chotelal yadav 3605
77	3606	Private	Agriculture	0.039	Ram sevak choubey s/o Yadupati choubey 3606
78	3611	Private	Agriculture	0.1041	Vishundev Singh S/O- Late Jagrath singh, Markandey chobey S/O- Ramdatt chobey 3611
79	3612	Private	Agriculture	0.0644	Bhuneshwar choubey s/o Ramshanka rchoubey, Chandravansh choubey s/o Ramnareshchoubey, Hari choubey, Devendra choubey Nagina choubey, Ram niranjan choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramdhani choubey 3612
80	3613	Private	Agriculture	0.0634	Ramnaresh choubey, Hari choubey, Devendra choubey s/o Nagina choubey, ram niranjan choubey, Rajeshwar choubey s/o Ramdhani choubey, Sunil chaturvedi, Alok gautam s/o Yaduvansh choubey, Renu Chaturvedi w/o Let. Vijay narayan choubey, Virendra choubey s/o Let. Yaduvanshchoubey, Priti kumari s/o Raj kumar singh, Dinanath singh s/o Ramasinhasan singh, Ganapati sharma s/o Jamindar sharma 3613
81	3614	Private	Agriculture	0.1104	Kishunadev yadav s/o Jagannath yadav 3614
Village: Dumraon					
82	105	Government	Baandh	0.0185	Aanavad Sarvasadharan 105
83	115	Private	Agriculture	0.2777	Rajendra pal s/o Basudev Ganderi, Masud Alam

					Ansari s/o Haji ansari 115
84	116	Government	Baandh	0.0562	Aanavad Sarvasadharan 116
85	196	Government	Baandh	0.012	Aanavad Sarvasadharan 196
86	197	Private	Agriculture	0.0371	Brahmanand choubey, Ram kumar choubey s/o Ramnarayan choubey, Krishnadev choubey, Ramdev choubey s/o satanand choubey, Nirbhay Shankar chaubey s/oLet. Vinod Shankar choubey 197
87	198	Private	Agriculture	0.0557	Vikram bhar s/o Kedar bhar 198
88	199	Private	Agriculture	0.0689	Record not found 199
89	200	Private	Agriculture	0.0027	Premnath choubey s/o Jagdish choubey, Anil kumar choubey s/o Let. Jagdish choubey, Sunil kumar choubey s/o Let. Jagdish choubey 200
90	202	Private	Agriculture	0.0787	Tarkeshwar prasad, s/o Thakur prasad, Haragovid prasad s/o Tarkeshwar prasad, Shri mati Vimala devi w/o Chandrama pandey, Shyam sundar prasad s/o Let. Shivdayal ram, Arjun prasad s/o Tarkeshwar prasad 202
91	206	Private	Agriculture	0.0499	Jitendra kumarsingh s/o Gaurishankar singh 206
92	207	Private	Agriculture	0.0724	Shashank shekhar upadhyay s/o Chandrashekhar upadhyay, Jilebiya devi, w/o Shyam narayan chamar, Ram bihari rai, s/o Let. Bagedu rai, ,Sonamatidebi w/o Chandrashekhar upadhyay, Abhishek kumar s/o Mohanlal upadhyay, Ranjeet prasad, Sanjit prasad s/o Gulab prasad 207
93	208	Private	Agriculture	0.0725	Shree Ram sharma, s/o Raamajanm sharma, Shashaank sekhar upaadhyaay s/o Chandrashekhar upaadhyaay, Raadha krshna Sharma s/oRaamajanam

					sharma, Chandraavati dei w/o Krishan sharma, Shree Mati Dayamantee devi w/o Bhagavaan prasaad, Birendra kumar Sharma s/o Shri ram sharma, Bhaageerathee prasads/o mangal prasad, Sonamati devi w/o Chandrashekhar upaadhyay, Abhishek kumaars/o Mohanalal upaadhyay, Ranjeet prasad, Sanjeet Prasad s/o Gulaab prasad 208
94	209	Private	Agriculture	0.017	Raas bihaaree rai, Shiv bihaaree raay s/o Let. Bageduraay 209
95	215	Private	Agriculture	0.0133	Ramu prasad s/o kaashee prasad, Sumitra devee w/o Sudaama sinh, Ramuni devi, w/o Surendr singh, Susheela devee s/o Upendr singh, Rehana khaatoon w/o Abdul kalaam, Mohayodeen s/o Habeeb khaan, Pankaj paal s/o Umaashankar pal Raushani kumari w/o Ravi prataap singh, usha devi w/o Bijaya bahadur ray 215
96	218	Private	Agriculture	0.0127	Sonaajhari devee w/o Dadan sinh, Kedaar chammaar s/o Let. Raam nageena chammaar, Prema chaurasiya s/o Raj kumar Prasad chaurasiya, Babita devee, w/o Raajesh kumar, Indu debee w/o Raj kumar saah, Nirmal Ram, s/o Let. Kedaar chammaar, Shobha devee w/o Manoj kumar 218
97	219	Private	Agriculture	0.0956	Kedaar chammaar s/o Let. Ramanageena chammaar, Kedaar chammaar, aravejakhtar ,Ejaajakhtar, Shaheed Ekabaal s/o Fasal Hafeej, Nirmal Ram, Manoj Ram s/o Let. Kedaar chammaar, Surajee Debee w/o Kedaar chammaar, Sarita Devee w/o Manoj raam Shobha devee w/o manoj kumar singh 219
98	220	Private	Agriculture	0.0487	Mukesh kumaar singh, s/o Harendr kumaar singh, Kalaavatee devi w/o Ganesh

					gond, Shree matee Geeta devi w/o Gorakh chaand, Sukiyadevee w/o Baijanaathpaasee, Balakeshiyadebee w/o Bhola gond, Ranganaath prasaad, s/o Raadhaakrshn sonaar 220
99	221	Private	Agriculture	0.0005	Record not found 221
100	223	Private	Agriculture	0.0255	Record not found 223
101	224	Private	Agriculture	0.1114	Fazlur Rahman s/o Barkat Mian 227
102	225	Private	Agriculture	0.0617	Ishwer Singh, Dhanpat Singh, Mahesh Prasad Srivastava, Dinesh Prasad Srivastava, Mohan Prasad Sri vastava, s/o Jagdamba Sahay, Vinay Shankar Srivastava s/o Jagdish Prasad Srivastava, Kumkum Devi w/o Lalu Ram, Dharmendra Ram s/o Kanhaiya Ram, Indramani Devi w/o Mahesh Singh, Urmila Debi w/o Srinarayan Singh, Laxman Tatwa, S/o Satyanarayan Tatwa 225
103	2262	Private	Agriculture	0.0014	Braj Kumar rai S/O- Kripa rai 2262
104	2268	Private	Agriculture	0.1077	Mutan prasaad s/o Kiraheer prasaad 2268
105	2282	Private	Agriculture	0.0603	Dumraon Narpalika 2282
106	2283	Government	Canal	0.1449	AnaavaadSarvasaadhaaran 2283
107	2293	Private	Agriculture	0.0538	Vikash mishra s/o Let. Shivadhar mishra, Jvaala mishra s/o Lachhuman mishr 2293
108	2294	Private	Agriculture	0.0508	Tillu Rai 2294
109	2296	Private	Agriculture	0.0975	Kanchan devee w/o VarameshvaranaathTivaaree 2296
110	244	Government	Canal	0.0092	Anaavaad Sarvasaadhaaran 244
111	309	Private	Agriculture	0.111	Nathuni Roy, Jai Gopal Roy, Vishundev ray s/o Muneshwar ray

					309
112	331	Private	Agriculture	0.1579	Premanaath chaube, s/o jagadeesh chaube, Anilkumaar chaube s/o Let. Jagadeesh chaube, Suneel kumaar chaube, s/o Let. Jagadeesh chaube, Narendrnaath chaube s/o Let. Jagadeesh chaube, Meera devee w/o Amarendrnaath chaube, Musamaat manava devi /o ganga dusaadh, Maracheeya devee w/o Panna laal Paasavaan 331
113	332	Private	Agriculture	0.1393	Chandra Vansh Choubey, s/o Ramnaresh Choubey, Birendra Choubey s/o Chandravansh Choubey 332
114	334	Private	Agriculture	0.0817	Shaanti devee w/o Baaleshvarchand saah, Hasan khaan s/o Habeebee khaan, Maaya chaube w/o Suneel kumaarchaube, Gopaal jeechaube, Ravindrnaath chaube urf nepaalchaube, Muktinaath chaube s/o Let. Chandrashekhhar chaube 334
115	365	Government	Nala	0.0139	Anaavaad Sarvasaadhaaran 365
116	50	Private	Agriculture	0.0009	Santosh kumar paasee, s/o Lalan paasee, Chandrvansh chaube s/o Raamanaresh chaube, Renu chaturvedee w/o Let. Vijay naaraayan chaube, Birendra chaube s/o chandravansh chaube 50
117	51	Private	Agriculture	0.2043	Sobha devee w/o Anil kumaarTivaaree, Pushpa Tivaaree d/o RaamikabaTivaaree, TulaseeTivaaree s/o Harikevalyaadav 51
118	52	Private	Agriculture	0.0362	Dhanavantee debi w/o Kapilmuni singh, Nagendra kumar, Dhanu kumars/o Kapilmuni singh, Krishna devi w/o Indradev pandey, Sugandhi pandey w/o Shri Satyanarayan pandey, Musmat Ranju devi w/o Vidya upadhyay, Malti devi d/o vidya upadhyay, Dalival

					Upadhyay, Kamli devi w/o Pitambar upadhyay, Mithlesh upadhyays/o pitambar upadhyay, Dadan ji upadhyay pita Sridhar upadhyay, Kiran devi w/o mohan ji upadhyays/o vinayak upadhyay 52
119	53	Private	Agriculture	0.1105	Premnath choubey, Anil kumar choubey/s/o Let. Jagdish choubey 53
120	54	Private	Agriculture	0.052	Sunil kumar choubey s/o Let. Jagdish choubey, Narendra nath choubey s/o Let. Jagdish choubey, Meera devi w/o Amarendra nathchoubey, Raghupat ray pita Bhagavat ray 54
121	55	Private	Agriculture	0.1281	Krishna dev choubey s/o Satnathchoubey, Ram vilassingh s/o Sitaram kori, Prabha devi w/o Dinanath singh Dhan bahadur singh s/o Let. Ramchandra singh 55
122	56	Private	Agriculture	0.0149	Jagdish ahir s/o Khakhanuahir, Krishnadev choubey s/o Vishvanath choubey, Gopal ji choubey, Ravindra nathchoubey urf Nepal choubey, Muktinath choubey s/o Let. Chandrashekhar choubey, Shyam dev s/o Jagdish singh, dhanabahadur s/o Let. Ramchandra singh, Jitendra kumar singhs/o Gaurishankar singh 56
123	59	Government	Road	0.051	Aanavad Sarvasadharan 59
124	62	Private	Agriculture	0.0014	Jayashree kumari w/o Kushal kumar 62
125	64	Private	Agriculture	0.0185	Shiv kumari devi w/o Baban singhyadav, Afsana bano w/o Aftab alam, Sumitra devi w/o Duram ray, shankar prasad s/o Let. Kanhaiya prasad gupta, Jagmohan singhyadavs/o Bhuneshwar singh yadav, Love kumar pandey s/o Let. Ramadhar pandey, Kunti debi w/o Munna yadav, Madhu kumari w/o Rajesh

					singh yadav, Sunaina debi w/o Harendra yadav 64
126	65	Private	Agriculture	0.0789	JaibunNisha w/o Mansoor Alam, Kashinath pandeys/o Vishwanath pandey, Satyendra prasad singh s/o Nagendra prasad singh, Satyendra prasad singh s/o Vishwanath singh, love Kumar pandeys/o Let. Ramadhar pandey, Ramendra kumarsingh s/o Shri Ganga singh, Rajiv kumar singhs/o Dadan singh, Shubhanti debi w/o Akhileshwar kumar, Lala debi w/o Sitaram singh, Chandan kumar s/o Nandakishor, Arvind kumar singh s/o Shyamnarayan singh 65
127	66	Private	Agriculture	0.0459	Radha Krishna sharmas/o Ramajanm sharma, Renu devi w/o Chathulal Saryu yadavs/o Bachchu yadav, Aayesha begam w/o Akhtar hussain, Teja khan s/o Samasudeen khan 66
128	687	Private	Agriculture	0.0585	Rajendra rai s/o Chathu ray 687
129	69	Private	Agriculture	0.0562	Ramdev singh, Birendradevsingh, Vikram dev singh, omdevsingh, Shri prakashsingh, Narendra dev singh, Sanjay singh ,Omprakash singh s/o Yamuna singh, Shri kanhaiyasingh ,Santosh singhs/o Ramdev singh, Sunita singh w/o virendradev singh 69
130	698	Private	Agriculture	0.0055	Kawaldhari Rai, Jagnarayan Rai S/O- Hargun Rai 698
131	699	Private	Agriculture	0.0467	Krishna kumar singh, Rajeshwar singh, Nirmal kumar sharma s/o Manikachand sharma, Suman kumar s/o Mahendra prasad 699
132	70	Private	Agriculture	0.1869	Shri dayanand ray s/o Ramamajanam ray, Chinta debi w/o Anil gond, Aayesha praveens/o

					MumatajAhemd, Kaushalya debi w/o Vijay Chaudhary, Shrimati Gago debi w/o Badri mishra, Shanti debi w/o Jagdish singh Shivaratri debi w/o Aniruddha prasad, Anju Majumdar w/o Prabhas Majumdar 70
133	700	Private	Agriculture	0.0836	Baijnath prasad, s/o Vishwanath prasad, Mangru sharma, Let. Nageshwar sharma, Santosh sharma s/o Rupachand sharma 700
134	701	Private	Agriculture	0.1226	Yogendra rai, Sushil kumar ray s/o Jagdish rai 701
135	703	Private	Agriculture	0.1024	Radhika devi w/o Ramapati ray, Surdasha ray, Dinesh rai, Harendra ray s/o Baijnath ray, Veeran ray, Jalendra ray s/o Baban ray, Chandrachudi ray urf Chandrama ray, Baburdan ray s/oBasropan ray 703
136	704	Private	Agriculture	0.0905	Kanhaiya ray s/o Sakheechandr ray, Lal ji rai s/oDebidyal ray 704
137	714	Private	Agriculture	0.3251	Ramanageena Tiwari, Shivmangal Tiwari, Piarokunvari, Ram kumartiwari , Vishwanath Tiwari s/oShivanatha Tivari , Gupteshwar Tiwari s/o Devaki Tiwari, Shambhu Tiwari, Bhola Tiwari s/o Ram pujantiwari 714
138	715	Private	Agriculture	0.0157	Navin kumar rai, raveen kumar s/o Prabhakar ray, Amravati devi w/o prabhakar ray 715
139	716	Private	Agriculture	0.0141	Sonu kumar s/o Avadhesh kumar singh, Shyam bihari rai s/o Benny ray 716
140	717	Private	Agriculture	0.2415	Binda devi w/o Nand kumar Turha, Satyendra kumarTurhas/o Bharat Turhaurf Satyanarayan Turha, Saraswati devi, w/o Ramji 717
141	719	Private	Agriculture	0.0696	Lalmuni devi w/o Bhagavan

					das Bijay Gupta, Kishan Gupta s/o Raghunath gupta, Kamala devi w/o Shri ram Rajan singh 719
142	720	Government	Nala	0.0232	Aanavad Sarvasadharan 720
143	721	Private	Agriculture	0.0369	Janardan singh s/o Let. Raghunath singh, Premasheeladebi w/o Amaprakashgiri, Champa debi w/o Dileep kumar upadhyay, Jabanti debi w/o Mahendra singh, Pinky debi w/o Ajay kumar 721
144	722	Private	Agriculture	0.015	Janardan singh s/o Raghunath singh, Jabanti devi w/o Mhendra singh, Pinki devi w/o Ajay kumar upadhya 722
145	724	Private	Agriculture	0.0005	Sriram ray s/o Shri Jagdish rai, Budhan ray, Mahaveer ray, Bajrang ray, Kailash rai s/o Avadh bihari rai, Rajesh kumars/o Ram Jatan singh, Mohan singh s/o Let, Nuthan singh Pankaj kumar choubey s/o Kanhaiya choubey, Gobind chaturbedi Bhola ray s/o Let. Ramjatan ray, satyendra ray s/o Bhola rai, Umesh rai s/o Bhola ray, Chhote lalrajbhar, Mukesh kumar rai, Bablu ray s/o Bhola ray 724
146	824	Private	Agriculture	0.01	JAG NARAYAN RAI, S/O-HARGUN RAI 824
147	825	Private	Agriculture	0.4319	Ram pratap singh, Nanda gopal ray, Lalan ji singh s/o Ramnaresh singh, Let. Ravindra rai, s/o Shivapujan ray, Punam devi w/o Dinanath ram, Manju devi w/o Let. Vimal kishore ojha 825
148	826	Government	Nala	0.0371	Aanavad Sarvasadharan 826
149	827	Private	Agriculture	0.039	Sakil Ahmed s/o Faiyaz Ahmed, Samsudin s/o Let. Barakatullah, Bibi Nabihan w/o Mo. Samsuddin, Mo. Shoaib s/o Let. Mo. Samasuddin 827
150	828	Private	Agriculture	0.1532	Musmat Indramani devi,

					w/o Shivagobind singh, Meera devi w/o Omprakash Turha 828
151	829	Private	Agriculture	0.0929	Somnath gupta s/o Kanhaiya prasad, Sanjay kumar, Sunil kumar, Sonu kumars/o Kanhaiya prasad 829
152	830	Private	Agriculture	0.1282	Manita debi w/o Rajmohan koiri, Chinta debi w/o Raj Narayan koiri, Anita debi w/o Tarkeshwar singh, Santosh kumar s/o Rameshwar nathtiwari, Jagmohan chaudhary s/o Gorakh ahir, Mo. Allauddin s/o Nathuni Miyan, Munni khatun w/o Mo. Allauddin, Mo. Kalimuddin Ansari s/o Mo. Akhtar hussain Punita kumari s/o Ravishankar ray 830
153	897	Government	Agriculture	0.1393	Aanavad Sarvasadharan 897
154	898	Government	Nala	0.0217	Aanaavad Sarvasadharan 898
155	899	Private	Agriculture	0.2777	BINDESWARI RAI SHARMA S/O- PRABHU NATHA SHRMA 899
156	901	Private	Agriculture	0.0664	Ramadvar choubey s/o Rajaram choubey, Gayatri devi w/o Nath choubey, Sahida khatun w/o Kasim, Lalan singh s/o Vishnath singh, Rani devi, w/o Lalchand ram, Geeta David w/o ram rai, Nirmala devi d/o Suresh ram, Gangaya devi d/o Jawahar ram, Sangeeta devi d/o Pankaj kumar Ram, Mandodari devi w/o Paras nath Thakur 901
157	924	Private	Agriculture	0.0276	Anirudh singh s/o Basudev singh, Rajeshwari debi w/o Sasuresh singh, Shree ram turhas/o Ganesh dayalturah, Shanti debi w/o Shri ram turha, Kedarnath ray s/o Shivashankar ray, Gaureeshankar ray s/o Narayan ray, Shubhanarayayan s/o Ganesh prasad, Nisar Jahan w/o Mo. Nashim, Krishna kumar singh s/o Shivnath

					singh, Mo. Shamim ansaris/o Kayamuddin ansari 924
Total				11.6827	

[F. No. RW/PAT/NH/120/GOH - DAUDNAGAR-NASRIGANJ - DAWAT - DUMRAON section/LA/2021/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.